





**DAV PUBLIC SCHOOL, JAMALPUR**  
**HOLIDAY HOMEWORK**  
**SUMMER VACATION-2026**

Class:- 4th

SL. No.	Subject	Homework/ Assignment	Subject Teacher Name & Signature
1.	ENGLISH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draw or paste some pictures of Collective nouns and their names.</li> <li>2. Build a robot on a chart paper.</li> <li>3. Prepare a collage on your favourite sports personality.</li> <li>4. Draw a picture of a holiday tree and write which place you like to visit during holiday.</li> <li>5. Learn question- answer including life skills, value based questions and practice writing section of chapter 1-A True Friend and Chapter – 2- Mix up at Birth.</li> </ol>	Pratiksha Yadav Komal Kumari Rande K R.K. Madh.
2.	MATHS	<p><u>Word Problems</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A box has 24 chocolates. How many chocolates are there in 36 boxes?</li> <li>2. A library had 4,56,780 books. It bought 23,450 more books. How many books are there now?</li> <li>3. A factory produced 8,75,000 toys. Out of these, 2,45,600 were sold. How many toys are left?</li> <li>4. What is:               <ol style="list-style-type: none"> <li>I. 1 more than 9,99,999?</li> <li>II. 100 less than 5,00,000?</li> <li>III. Double of 12,345?</li> </ol> </li> <li>5. Form the:               <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Greatest number using digits 4,8,1,6,9,2</li> <li>II. Smallest number using the same digits.</li> </ol> </li> <li>6. Activity               <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Create a place value chart using:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Colored paper</li> <li>b) Ice cream sticks</li> <li>c) Buttons or beads</li> <li>d) Show: Ones, Tens, Hundreds, Thousands, Ten Thousands, Lakhs.</li> </ol> </li> <li>II. Make a flower diagram:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Write a multiplication table (2 to 15) in petals.</li> <li>b) Use colors and sketches.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Gaurav R.K. Sudhraj
3.	HINDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. समय के महत्व पर निबंध लिखिए।</li> <li>2. तीन दिन के अवकाश के लिए प्राचार्य को पत्र लिखें।</li> <li>3. पाठ 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नोत्तर का पुनरावृत्ति करें।</li> <li>4. संज्ञा और विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए।</li> <li>5. चार्ट पेपर पर बड़े आकार में अलग-अलग भेद के नाम लिखें।</li> <li>6. दस पेज सुलेख लिखें।</li> </ol>	Akhilesh Yadav

4.	EVS	1) Make a model of Digestive system of Human body. 2) Make a plate showing balance diet. 3) Write important points about good eating habits on a chart paper. 4) Learn Questions and Answers, Keywords of Ch- 1 and Ch- 2	
5.	S.ST	<p><b>General Instructions-</b>          Complete the work neatly in copy Use colours, pictures, and creativity. Read newspapers/books and observe people around you.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kindness Jar Take a jar or box and write one kind act done by you every day on small slips. Example: Helped mother in kitchen Shared toys with sibling Helped a friend Paste 10 slips in your notebook.</li> <li>2. Greeting Card Make a "Thank You Card" for any family member and write why you appreciate them.</li> <li>3. Answer in one sentence What is a joint family? Why should we help elderly people? What is diversity?</li> <li>4. Community Observation:-             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Observe your neighbourhood and write:-                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1) How people help each other.</li> <li>a.2) Different languages spoken.</li> <li>a.3) Festivals celebrated together</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>5. <u>Health and Fitness:-</u> Healthy Family Challenge  <u>Do any 5 activities with family:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>b) Morning walk</li> <li>c) Yoga</li> <li>d) Cycling</li> <li>e) Healthy cooking</li> <li>f) Indoor games</li> <li>g) Paste photos or draw pictures.</li> </ol> </li> </ol>	  

Vandana Gupta  
CO-ORDINATOR

  
WING INCHARGE

  
Principal